



## उन्नाव पुलिस

### सराहनीय कार्य

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 09.06.2022

**गैंगस्टर/भूमाफिया/हिस्ट्रीशीटर जियालाल के विरुद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 78 लाख 40 हजार रुपए की अचल संपत्ति की कुर्को/जब्तीकरण की कार्यवाही की गई**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा गैंगस्टर/भूमाफिया/हिस्ट्रीशीटर जियालाल पुत्र स्व० चन्द्रिका नि० सुखलाल खेड़ा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाजविरोधी क्रियकलापों से अर्जित की गई अवैध अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत कुल 78 लाख 40 हजार रुपए को जब्त/कुर्क किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-** प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर की आख्या दिनांक 26.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि मु०अ०सं० 166/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर अधिनियम थाना गंगाघाट में नामित अभियुक्त जियालाल पुत्र स्व० चन्द्रिका नि० सुखलाल खेड़ा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा जियालाल उपरोक्त के द्वारा खतौनी संख्या 1427 से 1432 व आसपास के गांव में गरीब जनता की जमीनों को जबरदस्ती कब्जा कर लेना तथा उनको बेंचकर अवैध तरीके से धन कमाने का कार्य किया जाता है। अभियुक्त जियालाल उपरोक्त अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा कर उसकी प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेंच कर अपराध से आर्थिक लाभ अर्जित करता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 15/07/2017 को वादी श्री विशम्भर प्रसाद शुक्ला सर्वे लेखपाल मझरा पीपरखेडा तहसील सदर उन्नाव की सूचना पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 537/17 धारा 420/467/468/471 भादवि व 3 डेमेज पब्लिक प्रापर्टी एक्ट बनाम जियालाल पुत्र चन्द्रिका नि० सुखलालखेडा थाना गंगाघाट उन्नाव के पंजीकृत होकर विवेचना हुई जिसमें बाद विवेचना जियालाल उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया तथा जनपदीय टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित भूमाफिया घोषित है व दिनांक 10/03/2020 को श्री कल्लू पुत्र स्व० बिहारी नि० सुखलाल खेडा थाना गंगाघाट उन्नाव द्वारा सूचना दी गई कि जियालाल आदि द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डों कुल्हाडी आदि से लैस होकर वादी व उसके परिवारीजनों के साथ मारपीट करना जिससे रामू पुत्र कल्लू नि० सुखलालखेडा की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 93/22 धारा 147/148/149/307/504 भादवि पंजीकृत हुआ जिसमें साक्ष्य संकलन आदि के आधार पर धारा 302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट की बढ़ोत्तरी हुई । अभियुक्त जियालाल उपरोक्त थाना हाजा का मजारिया हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसकी हिस्ट्रीशीट क्रमांक-206A है ।

आज दिनांक 09.06.2022 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के आदेश के अनुपालन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के निर्देशन में वाद संख्या 07/2022 धारा 14(1) गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर मय भारी पुलिस बल के साथ अभियुक्त जियालाल उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अचल संपत्ति कीमत करीब 78,40,000/- रु0 को कुर्क/जब्त किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्र0सं0 | ग्राम/स्थान का नाम                                | गाटा संख्या | खातेदार के हिस्से का क्षेत्रफल                                                                                                                       | भूमि की मालियत  | भूमि को क्रय करने का दिनांक |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1.      | मजरा पीपरखेड़ा गैर एहतमाली पर0 हड़हा तहसील उन्नाव | 121,123,124 | 0.090,0.130,0.070 कुल भूमि 0.290 हे0 जिसमें नामांतरण आदेश के अनुसार 657.43 वर्ग मीटर भूमि जियालाल द्वारा विक्रय की जा चुकी है 0.224 हे0 भूमि शेष है। | 78,40,000/- रु0 | 28.04.2017                  |

**उक्त कुल अचल सम्पत्ति की मालियत – 78,40,000/- रु0 है।**





# उन्नाव पुलिस

## सराहनीय कार्य

दिनांक 09.06.2022

### सात वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा सात वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

#### थाना सफीपुर-

- 1.श्रवण कुमार यादव पुत्र होशराम यादव नि० ग्राम दौलतयारपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
- 2.सोनेलाल पुत्र स्व० रामपाल नि० ग्राम पीखी थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
- 3.रमाकान्ती पत्नी सोनेलाल नि० उपरोक्त

#### थाना बिहार-

- 1.उदयपाल पुत्र रामप्रसाद उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम दुबाई थाना बिहार उन्नाव
- 2.सरवनलाल पुत्र श्रीपाल उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम कोटवर थाना बिहार जनपद उन्नाव

#### थाना असोहा-

- 1.केशन कुमार पुत्र देवी कहार उम्र करीब 40 वर्ष नि० दऊ थाना असोहा जनपद उन्नाव

#### थाना बांगरमऊ-

- 1.सौरभ तिवारी पुत्र श्री रामप्रकाश तिवारी निवासी मो० नौनिहालगंज कस्बा व थाना बांगरमऊ उन्नाव उम्र 38 वर्ष



# उन्नाव पुलिस

## सराहनीय कार्य

थाना दही, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 09.06.2022

## **दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दही पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण:-** आज दिनांक 08.06.2022 को थानाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र सिंह व उ0नि0 तमीजुद्दीन मय हमराह फोर्स द्वारा मु0अ0सं0 155/22 धारा 376/506 भा0दं0वि0 व 67 ए आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त विपिन उर्फ दीपक पुत्र शिवबालक नि0 मन्या थाना दही जनपद उन्नाव को वशीरतगंज मोड़ से गिरफ्तार किया गया।



## **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. विपिन उर्फ दीपक पुत्र शिवबालक नि0 मन्या थाना दही जनपद उन्नाव

## **थाना दही पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री तमीजुद्दीन
3. हे0का0 योगेन्द्र सिंह
4. का0 नरेन्द्र सिंह



# उन्नाव पुलिस

## सराहनीय कार्य

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 09.06.2022

## **चोरी की मोटरसाइकिल के साथ वाहन चोर गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा शातिर चोर को चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण** – आज दिनांक 09.06.2022 को व0उ0नि0 जयप्रकाश यादव मय हमराह हे0का0 रोहित सिंह चंदेल ,हे0का0 राजेन्द्र सरोज द्वारा मिर्रीचौराहा पर चैकिंग तलाश वांछित अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर असेहरु नहर पुलिया पुरवा मौरावा मार्ग से अभियुक्त -भगौती पुत्र गंगा विशुन लोध निवासी ग्राम भदनांग थाना पुरवा जनपद उन्नाव को चोरी की अपाचे मो0सा0 न0 UP 32 JK 5319 के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त द्वारा मो0सा0 चोरी कर नम्बर प्लेट बदल कर मो0सा0 बेचता था । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर नियमानुसार मु0अ0स0 262/22 धारा- 41/411/413/419/420 भा.द.वि बनाम -भगौती पुत्र गंगा विशुन लोध निवासी ग्राम भदनांग थाना पुरवा जनपद उन्नाव पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है ।



### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

1. भगौती पुत्र गंगा विशुन लोध निवासी ग्राम भदनांग थाना पुरवा जनपद उन्नाव

### **बरामदगी का विवरण-**

1. एक अदद अपाचे मो0सा0 न0 UP 32 JK 5319 चेचिस न0 MD634BE4XH2K71505

### **थाना पुरवा पुलिस टीम -**

1. व0उ0नि0 जयप्रकाश यादव
2. हे0का0 रोहित सिंह चंदेल
3. हे0का0 राजेन्द्र सरोज



# उन्नाव पुलिस

## सराहनीय कार्य

थाना मांखी, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 09.06.2022

## **1 किलो 800 ग्राम गांजे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांखी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को कब्जे से 01 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण** – आज दिनांक 09.06.2022 उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी मय हमराह फोर्स द्वारा अभियुक्त राजन नट पुत्र बाबू नट उम्र करीब 30 वर्ष ग्राम नटपुरवा थाना मांखी उन्नाव को कब्जे से 01 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर नट पुरवा चौराहे से भदेमू गांव से 100 मीटर पहले से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 153/22 , मु0अ0सं0 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया ।



### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

1. राजन नट पुत्र बाबू नट उम्र करीब 30 वर्ष ग्राम नटपुरवा थाना मांखी उन्नाव ।

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 01 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा ।

### **थाना मांखी पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
2. का0 राहुल झा
3. का0 सतेन्द्र कुमार



# उन्नाव पुलिस

## सराहनीय कार्य

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 09.06.2022

## **ट्रैक्टर की ट्राली चोरी करने वाले चार अभियुक्त गिरफ्तार, ट्राली बरामद**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा ट्रैक्टर की ट्राली चोरी करने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा ट्रैक्टर की ट्राली बरामद की गई ।

**संक्षिप्त विवरण** – दिनांक 15.04.2022 को वादी श्री राजबहादुर सिंह पुत्र स्व० अजय पाल सिंह निवासी ग्राम चिलौला पोस्ट सरौसी थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा स्वयं की ट्रैक्टर की ट्राली व दो बैट्री चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में मु०अ०सं० 238/2022 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कराया गया । जिसमें आज दिनांक 09.06.2022 को मगरवारा चौकी प्रभारी मय पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कमल भट्टे के पास पेड़ के नीचे से तीन चोरो को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये तीनों चोरो से गहनता से पूछताछ पर बताया कि हम लोगो ने लगभग 02 महीने पहले ग्राम चिलौला के रहने वाले छोटे सिंह की दुकान के सामने से ट्राली चोरी करके ले गये थे, जिसे हम लोगो ने कानपुर नगर के ग्वालटोली के रहने वाले श्री किसन पुत्र सुखदेव निवासी नत्थापुरवा को बेच दिया था । तीनों अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी गयी ट्राली को बरामद किया गया तथा किसन उपरोक्त को भी हिरासत में लिया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को नियमानुसार मा० न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -**

1. उमेश पासी पुत्र चन्द्र पाल उम्र 20 वर्ष निवासी फत्तेपुर थाना गंगाघाट उन्नाव
2. संदीप लोधी पुत्र सूरज पाल निवासी फत्तेहपुर थाना गंगाघाट उन्नाव उम्र 20 वर्ष
3. सुखवीर लोधी पुत्र किशोरीलाल लोधी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव
4. श्री किशन पुत्र सुखदेव निवासी नत्था पुरवा थाना ग्वालटोली जनपद कानपुर नगर उम्र 25 वर्ष

### **बरामदगी का विवरण-**

1. एक अदद ट्रैक्टर की ट्राली

### **थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम -**

1. उ०नि० रोहित कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी मगरवारा थाना कोतवाली सदर उन्नाव
2. हे०का० पातीराम मौर्या
3. का० भूपेन्द्र
4. का० जितेन्द्र पाल सिंह
5. का० हरिओम सिंह